

# Deu

## Chapter 22

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

הָשֵׁב	מֵהֶם	וְהִתְעַלְמָתָּ	וְנִדְחִים	שִׁי	אֶת-	אִי	אֶחָיו	שׁוֹר	אֶת-	תִּרְאֶה	לֹא-	1
लौटाना	उनसे	और-छिपाएगा	भटके-हुए	भेड़	को-	या	भाई-तेरे-का	बैल	को-	देखेगा	नहीं-	
<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H5956</a>	<a href="#">H5080</a>	<a href="#">H7716</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H7794</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H3808</a>	
										לְאָחָיו:	תִּשְׁבֶּה	
										भाई-तेरे-को	लौटाएगा-उन्हें	
										<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H7725</a>	

“यदि तुम देखो कि तुम्हारे पड़ोसी की गाय या भेड़ खुली है, तो तुम्हें इससे लापरवाह नहीं होना चाहिए। तुम्हें निश्चय ही इसे मालिक के पास पहुँचा देना चाहिए।

בֵּיתוֹ	בֵּיתוֹ	אֶל-	וְאִסְפָּתוֹ	יִדְעָתוּ	וְלֹא	אֶלָּה	אֶחָיו	קָרוֹב	לֹא	וְאִם-	2	
घर-तेरे	बीच	को-	और-इकट्ठा-करेगा-उसे	जानता-उसे	और-नहीं	तुझसे	भाई-तेरा	निकट	नहीं	और-यदि-		
	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0622</a>	<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H7138</a>	<a href="#">H3808</a>			
										וְהִיא		
										और-होगा		
										उसे	और-लौटाएगा-उसे	
										<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0853</a>	
										उसे	भाई-तेरा	
										<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H1875</a>	
										जब-तक	तेरे-साथ	
										<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H1961</a>	

यदि इसका मालिक तुम्हारे पास न रहता हो या तुम उसे नहीं जानते कि वह कौन है तो तुम उस गाय या भेड़ को अपने घर ले जा सकते हो और तुम इसे तब तक रख सकते हो जब तक मालिक इसे ढूँढता हुआ न आए। तब तुम्हें उसे उसको लौटा देना चाहिए।

אֲבֹתָ	לְכָל-	תַּעֲשֶׂה	וְכֵן	לְשִׁמְלֹתָיִךְ	תַּעֲשֶׂה	וְכֵן	לְחִמְרוֹ	תַּעֲשֶׂה	וְכֵן	3		
खोयी-हुई-वस्तु	सब-को-	करेगा	और-ऐसे	वस्त्र-उसके-को	करेगा	और-ऐसे	गधे-उसके-को	करेगा	और-ऐसे			
<a href="#">H0009</a>	<a href="#">H3605</a>			<a href="#">H8071</a>			<a href="#">H2543</a>					
										אֶחָיו		
										भाई-तेरे-की		
										जो-		
										<a href="#">H0006</a>	<a href="#">H0251</a>	
										उससे	खोएगा	
										<a href="#">H5956</a>	<a href="#">H3201</a>	
										<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4672</a>	

तुम्हें यही तब भी करना चाहिए जब तुम्हें पड़ोसी का गधा मिले, उसके कपड़े मिलें या कोई चीज जो पड़ोसी खो देता है। तुम्हें अपने पड़ोसी की सहायता करनी चाहिए।

מֵהֶם	וְהִתְעַלְמָתָּ	בְּרֶגֶל	נִפְלִים	שׁוֹרָו	אִי	אֶחָיו	חֲמוֹר	אֶת-	תִּרְאֶה	לֹא-	4	
उनसे	और-छिपाएगा	रास्ते-में	गिरे-हुए	बैल-उसका	या	भाई-तेरे-का	गधा	को-	देखेगा	नहीं-		
<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H5956</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H5307</a>	<a href="#">H7794</a>		<a href="#">H0251</a>	<a href="#">H2543</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H3808</a>		
										תִּקַּם		
										उठाना		
										उसके-साथ	उठाएगा	
										<a href="#">H0006</a>	<a href="#">H0251</a>	

“यदि तुम्हारे पड़ोसी का गधा या उसकी गाय सड़क पर पड़ी हो तो उससे आँख नहीं फेरनी चाहिए। तुम्हें उसे फिर उठाने में उसकी सहायता करनी चाहिए।

כִּי	אִשָּׁה	שְׂמֹלֶת	גִּבּוֹר	יִלְבָּשׁ	וְלֹא-	אִשָּׁה	עַל-	גִּבּוֹר	כְּלִי-	יִהְיֶה	לֹא-	5
क्योंकि	स्त्री-का	वस्त्र	पुरुष	पहनेगा	और-नहीं-	स्त्री	उपर-	पुरुष-की	वस्तु-	होगा	नहीं-	
	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H8071</a>	<a href="#">H1397</a>	<a href="#">H3847</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0802</a>		<a href="#">H1397</a>	<a href="#">H3627</a>	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3808</a>	
										תְּעַבֵּת		
										घृणा		
										यहोवा-की		
										<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8441</a>	
										सब-	एलोहीम-तेरे	
										<a href="#">H0428</a>	<a href="#">H3605</a>	
										<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H3068</a>	

“किसी स्त्री को किसी पुरुष के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और किसी पुरुष को किसी स्त्री के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर उससे घृणा करता है जो ऐसा करता है।

אָפּגאַהן	אַרְצֵי	על-	אַ	אַען	בְּכָל-	בְּרַחֵק	לְפָנַי	אַפּוֹר	קֹן-	יִקְרָא	כִּי
चूजे	भूमि	उपर-	या	पेड़	सब-में-	रास्ते-में	सामने-तेरे	पक्षी-का	घोंसला-	मिलेगा	यदि
<a href="#">H0667</a>	<a href="#">H0776</a>			<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H6833</a>	<a href="#">H7064</a>	<a href="#">H7122</a>	

הָאָם	תִּקַּח	לֹא-	הַבְּיָצִים	על-	אַ	הָאָפּוֹתִים	על-	רַבֵּצַת	וְהָאָם	בְּיָצִים	אַ
माता	लेगा	नहीं-	अंडों	उपर-	या	चूजों	उपर-	बैठी-हुई	और-माता	अंडे	या
<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1000</a>			<a href="#">H0667</a>		<a href="#">H7257</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H1000</a>	

על-  
הבנים:  
उपर-  
बच्चों

“किसी रास्ते से टहलते समय तुम पेड़ पर या जमीन पर चिड़ियों का घोंसला पा सकते हो। यदि मादा पक्षी अपने बच्चों के साथ बैठी हो या अपने अण्डों पर बैठी हो तो तुम्हें मादा पक्षी को बच्चों के साथ नहीं पकड़ना चाहिए।

לָךְ	יִטַּב	לְמוֹעַן	לָךְ	תִּקַּח-	הַבְּנִים	וְאֵת-	הָאָם	אֶת-	תִּשְׁלַח	שְׁלַח	7
तेरे-लिए	भला-होगा	ताकि	तेरे-लिए	लेगा-	बच्चे	और-को-	माता	को-	भेजेगा	भेजना	
	<a href="#">H3190</a>	<a href="#">H4616</a>		<a href="#">H3947</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H7971</a>	

וְהָאָרְכָּה  
יָמֵים:  
स  
दिनों  
और-लम्बे-करेगा  
[H3117](#) [H0748](#)

तुम बच्चों को अपने लिए ले सकते हो। किन्तु तुम्हें माँ को छोड़ देना चाहिए। यदि तुम इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा और तुम लम्बे समय तक जीवित रहोगे।

בְּבֵיתְךָ	דָּמִים	תִּשְׂמַח	וְלֹא-	לְנִיחָה	מִעֲקָה	וְעָשִׂיתָ	חָדָשׁ	בַּיִת	תִּבְנֶה	כִּי	8
घर-तेरे-में	खून	रखेगा	और-नहीं-	छत-तेरी-को	मुँडेर	और-बनाएगा	नया	घर	बनाएगा	यदि	
	<a href="#">H1818</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1406</a>	<a href="#">H4624</a>		<a href="#">H2319</a>		<a href="#">H1129</a>		

כִּי-  
יִפֹּל  
הַגִּבֹּל  
מִמֶּנּוּ:  
स  
उससे  
गिरने-वाला  
गिरेगा  
[H5307](#) [H5307](#)

“जब तुम कोई नया घर बनाओ तो तुम्हें अपनी छत के चारों ओर दीवार खड़ी करनी चाहिए। तब तुम किसी व्यक्ति की मृत्यु के आपराधी नहीं होओगे यदि वह उस छत पर से गिरता है।

וְהַבּוֹאֵת	תִּזְרַע	אֲשֶׁר	הַזֵּרַע	הַמִּלֻּאָּה	תִּקַּח-	פֶּן-	כִּלְאִים	כִּרְמוֹךְ	תִּזְרַע	לֹא-	9
और-फल	बोएगा	जो	बीज-का	पूरा	पवित्र-होगा	कहीं-	मिश्रित-बीज	दाख-बाग-तेरा	बोएगा	नहीं-	
<a href="#">H8393</a>	<a href="#">H2232</a>		<a href="#">H2233</a>	<a href="#">H4395</a>	<a href="#">H6942</a>	<a href="#">H6435</a>	<a href="#">H3610</a>	<a href="#">H3754</a>	<a href="#">H2232</a>	<a href="#">H3808</a>	

וְהַכָּרֶם:  
स  
दाख-बाग-का  
[H3754](#)

“तुम्हें अपने अंगूर के बाग में अनाज के बीजों को नहीं बोना चाहिए। क्यों? क्योंकि बोये गए बीज और तुम्हारे बाग के अंगूर दोनों फसलें उपयोग में नहीं आ सकती।

וְהַבְּשֹׂר-	בְּשֹׂר-	תִּתְחַלֵּשׁ	לֹא-	10
और-गधे-से	बैल-से-	जोतेगा	नहीं-	
<a href="#">H2543</a>	<a href="#">H7794</a>		<a href="#">H3808</a>	

“तुम्हें बैल और गधे को एक साथ हल चलाने में नहीं जोतना चाहिए।

וְהַחֲרוֹשׁ:	וּפְשָׁתִים	צָמָר	שֶׁעִטְּוּ	תִּלְבָּשׁ	לֹא	11
स	एक-साथ	ऊन	मिश्रित-कपड़ा	पहनेगा	नहीं	
	<a href="#">H6593</a>	<a href="#">H6785</a>	<a href="#">H8162</a>	<a href="#">H3847</a>	<a href="#">H3808</a>	

“तुम्हें उस कपड़े को नहीं पहनना चाहिए जिसे ऊन और सूत से एक साथ बुना गया हो।

12	גְּדֻלִים	תַּעֲשֶׂה-	לְךָ	עַל-	אַרְבַּע	כַּנְפוֹת	כִּסּוּתָהּ	אֲשֶׁר	תַּכְסֶּה-	בָּהּ:	ס
	झालर	बनाएगा-	तेरे-लिए	उपर-	चार	कोनों	वस्त्र-तेरे-की	जो	ढकेगा-	उससे	स
	<a href="#">H1434</a>				<a href="#">H0702</a>	<a href="#">H3671</a>	<a href="#">H3682</a>		<a href="#">H3680</a>		

“तुम्हें अपने पहने जाने वाले चोगे के चारों कोनों पर फुंदने लगाने चाहिए।

13	כִּי-	יִקַּח	אִישׁ	אֵשֶׁת	וּבָא	אֵלֶיהָ	וַשְׁנֵאָה:
	यदि-	लेगा	पुरुष	स्त्री	और-आएगा	उसके-पास	और-घृणा-करेगा-उससे
		<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H0935</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H8130</a>

“कोई व्यक्ति किसी लड़की से विवाह करे और उससे शारीरिक सम्बन्ध करे। तब वह निर्णय करता है कि वह उसे पसन्द नहीं है।

14	וְשָׂם	לָהּ	עַל־לֵת	דְּבָרִים	וְהוֹצִיאָ	עִלֶּיהָ	שָׁם	רָע	וְאָמַר	אֶת-	הָאִשָּׁה
	और-रखेगा	उसे	बहाने	बातों-के	और-निकालेगा	उस-पर	नाम	बुरा	और-कहेगा	को-	स्त्री
			<a href="#">H5949</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H3318</a>		<a href="#">H8034</a>		<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0802</a>

הַזֹּאת	לְקַחְתִּי	וְאָקְרַב	אֵלֶיהָ	וְלֹא-	מָצְאתִי	לָהּ	בְּתוּלִים:
यह	लिया	और-गया	उसके-पास	और-नहीं-	पाया	उसे	कुंवारी
<a href="#">H2063</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H7126</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4672</a>		<a href="#">H1331</a>

वह झूठ बोल सकता है और कह सकता है, ‘मैंने उस स्त्री से विवाह किया, किन्तु जब हमने शारीरिक सम्बन्ध किया तो मुझे मालूम हुआ कि वह कुंवारी नहीं है।’ उसके विरुद्ध ऐसा कहने पर लोग उस स्त्री के सम्बन्ध में बुरा विचार रख सकते हैं।

15	וְלָקַח	אָבִי	הַנַּעֲרָה	וְהַנַּעֲרָה	וְהוֹצִיאָ	אֶת-	בְּתוּלִי	הַנַּעֲרָה	(
	और-लेगा	पिता	(लड़की-का)	(लड़की-का)	और-माता-उसकी	को-	कुंवारी	(	लड़की-की)
	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0517</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1331</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>

אֶל-	זְקֵנִי	הָעִיר	הַשְּׂעָרָה:
को-	पुरनियों	नगर-के	फाटक-को
<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2205</a>		<a href="#">H8179</a>

यदि ऐसा होता है तो लड़की के माता—पिता को इस बात का प्रमाण नगर की बैठकवाली जगह पर नगर प्रमुखों के सामने लाना चाहिए कि लड़की कुंवारी थी।

16	וְאָמַר	אָבִי	הַנַּעֲרָה	אֶל-	הַזְּקֵנִים	אֶת-	בְּתִי	לְאִישׁ	הָזֶה
	और-कहेगा	पिता	(लड़की-का)	को-	पुरनियों	को-	मेरी-बेटी	को-पुरुष	यह
	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2205</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H2088</a>

וְאֵשֶׁת	וַיִּשְׁנֵאָה:
पत्नी-को	और-घृणा-किया-उससे
<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H8130</a>

लड़की के पिता को नगर प्रमुखों से कहना चाहिए, ‘मैंने अपनी पुत्री को उस व्यक्ति की पत्नी होने के लिए दिया, किन्तु वह अब उसे नहीं चाहता।

17	וְהִנֵּה-	הָוָא	שָׂם	עַל־לֵת	דְּבָרִים	לְאָמַר	לֹא-	מָצְאתִי	לְבַתִּי	בְּתוּלִים	וְאֵלֶיהָ
	और-देखो-	वह	रखा	बहाने	बातों-के	कहते-हुए	नहीं-	पाया	बेटी-तेरी-को	कुंवारी	और-ये
	<a href="#">H2009</a>	<a href="#">H1931</a>		<a href="#">H5949</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H4672</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H1331</a>	<a href="#">H0428</a>

בְּתוּלִי	בְּתִי	וּפְרָשׁוּ	הַשְּׂמֹלָה	לְפָנַי	זְקֵנִי	הָעִיר:
कुंवारी	बेटी-मेरी	और-फैलाएंगे	वस्त्र	सामने	पुरनियों	नगर-के
<a href="#">H1331</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H6566</a>	<a href="#">H8071</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H2205</a>	

इस व्यक्ति ने मेरी पुत्री के विरुद्ध झूठ बोला है। उसने कहा, “मुझे इसका प्रमाण नहीं मिला कि तुम्हारी पुत्री कुंवारी है।” किन्तु यहाँ यह प्रमाण है कि मेरी पुत्री कुंवारी थी। तब वे उस कपड़े को नगर—प्रमुखों को दिखाएंगे।

18	וְלָקַחְו	זְקֵנִי	הָעִיר-	הָהוּא	אֶת-	הָאִישׁ	וַיִּסְרוּ	אֹתוֹ:
और-लेंगे	पुरनिये	नगर-के-	उस	को-	पुरुष	और-अनुशासन-करेंगे	उसे	
<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H2205</a>		<a href="#">H1931</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3256</a>	<a href="#">H0853</a>	

तब वहाँ के नगर—प्रमुख उस व्यक्ति को पकड़ेंगे और उसे दण्ड देंगे।



וּמְתוֹ और-मरेंगे	בְּאֲבָנִים पत्थरों-से	אֹתָם उन्हें	וּסְקָלוֹתָם और-पत्थर-मारोगे	הַהוּא उस	הָעִיר नगर-के	וּשְׁעָרָהּ फाटक	אֶל- को-	שְׁנֵיהֶם दोनों-उन्हें	אֶת- को-	וְהוֹצֵאתָם और-निकालोगे
<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H0068</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H5619</a>	<a href="#">H1931</a>		<a href="#">H8179</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H8147</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3318</a>

עַל- कारण-	הָאִישׁ पुरुष	וְאֶת- और-को-	בְּעִיר नगर-में	צִעֲקָהּ चिल्लाई	לֹא- नहीं-	אָשָׁר जो	דְּבָרָהּ बात	עַל- कारण-	(הַנְּעִרָה) (लड़की)	[הַנְּעִרָה] [लड़की]	אֶת- को-
	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H6817</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H1697</a>		<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0853</a>

ס स	מִקְרָבָהּ : बीच-से-तेरे	הָרַע बुराई	וּבְעִרָתָהּ और-साफ़-करेगा	רַעְיוֹ पड़ोसी-उसके-की	אִשְׁתּוֹ पत्नी	אֶת- को-	עִנָּה दीन-किया	אֲשֶׁר- जिसे-	דְּבָרָהּ बात
	<a href="#">H7130</a>	<a href="#">H7451</a>		<a href="#">H7453</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H0853</a>			<a href="#">H1697</a>

तुम्हें उन दोनों को उस नगर के बाहर फाटक पर लाना चाहिए और तुम्हें उन दोनों को पत्थरों से मार डालना चाहिए। तुम्हें पुरुष को इसलिए मार देना चाहिए कि उसने दूसरे की पत्नी के साथ शारीरिक सम्बन्ध किया और तुम्हें लड़की को इसलिए मार डालना चाहिए कि वह नगर में थी और उसने सहायता के लिये पुकार नहीं की। तुम्हें अपने लोगों में से यह बुराई भी दूर करनी चाहिए।

הָאִישׁ पुरुष	בָּהּ उसे	וְהַחֲזִיקָהּ और-पकड़ेगा-	הַמְּאָרְשָׁהּ मंगनी-हुई	(הַנְּעִרָה) (लड़की)	[הַנְּעִרָה] [लड़की]	אֶת- को-	הָאִישׁ पुरुष	יִמָּצָא पाएगा	בְּשָׂדֶה खेत-में	וְאִם- और-यदि-
<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H2388</a>	<a href="#">H0781</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H4672</a>		

וְשָׁכַב और-लेटेगा	עִמָּה उसके-साथ	וּמְתוֹ और-मरेगा	הָאִישׁ पुरुष	אֲשֶׁר- जिसे-	שָׁכַב लेटा	עִמָּה उसके-साथ	לְבָדּוֹ : अकेला
<a href="#">H7901</a>		<a href="#">H4191</a>	<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H7901</a>		<a href="#">H0905</a>

“किन्तु यदि कोई व्यक्ति मैदानों में, विवाह पक्की की हुई लड़की को पकड़ता है और उससे बलपूर्वक शारीरिक सम्बन्ध करता है तो पुरुष को ही मारना चाहिए।

כִּי क्योंकि	מֵוַת मृत्यु-का	תָּשָׂא पाप	(לְנִעְרָה) (लड़की-को)	[לְנִעְרָה] [लड़की]	אִין नहीं-है	דָּבָר कुछ	תַּעֲשֶׂה करेगा	לֹא- नहीं-	(וּלְנִעְרָה) (और-लड़की-को)	[וּלְנִעְרָה] [और-लड़की]
	<a href="#">H4194</a>	<a href="#">H2399</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H1697</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>

כַּאֲשֶׁר जैसे	יָקוּם उठेगा	אִישׁ पुरुष	עַל- उपर-	רַעְיוֹ पड़ोसी-उसके	וּרְצָחוֹ और-हत्या-करेगा-उसे	וְנִפְשׁוֹ जीव	בֶּן ऐसे	הַדָּבָר : यह
	<a href="#">H0376</a>			<a href="#">H7453</a>	<a href="#">H7523</a>	<a href="#">H5315</a>	<a href="#">H1697</a>	<a href="#">H2088</a>

तुम्हें लड़की के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उसे प्राण—दण्ड का भागी बनाता है। यह मामला वैसा ही है जैसा किसी व्यक्ति का निर्दोष व्यक्ति पर आक्रमण और उसकी हत्या करना।

ס स	לָהּ : उसे	מוֹשִׁיעַ बचाने-वाला	וְאִין और-नहीं-था	הַמְּאָרְשָׁהּ मंगनी-हुई	(הַנְּעִרָה) (लड़की)	[הַנְּעִרָה] [लड़की]	צִעֲקָהּ चिल्लाई	מִצָּאָהּ पाया-उसे	בְּשָׂדֶה खेत-में	כִּי क्योंकि
		<a href="#">H3467</a>	<a href="#">H0369</a>	<a href="#">H0781</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H6817</a>	<a href="#">H4672</a>		

उस व्यक्ति ने विवाह पक्की की हुई लड़की को मैदान में पकड़ा। लड़की ने सहायता के लिए पुकारा, किन्तु उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं था।

וְשָׁכַב और-लेटेगा	וּתְפָשָׁהּ और-पकड़ेगा-उसे	אֶרְשָׁהּ मंगनी-हुई	לֹא- नहीं-	אָשָׁר जो	בְּתוֹלָהּ कुंवारी	(נְעִרָה) (लड़की)	[נְעִרָה] [लड़की]	אִישׁ पुरुष	יִמָּצָא पाएगा	כִּי- यदि-
<a href="#">H7901</a>	<a href="#">H8610</a>	<a href="#">H0781</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H1330</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H4672</a>	

וְנִמְצָא : और-पाए-जाएं	עִמָּה उसके-साथ
<a href="#">H4672</a>	

“कोई व्यक्ति किसी कुंवारी लड़की जिसकी सगाई नहीं हुई है, को पकड़ सकता है और उसे अपने साथ बलपूर्वक शारीरिक सम्बन्ध करने को विवश कर सकता है। यदि लोग ऐसा होता देखते हैं तो

תהייה	ולו-	כסף	חמשים	(הנערה)	[הנער]	לאבי	עמה	השכב	האיש	ונתן
होगी	और-उसे-	चाँदी	पचास	(लड़की-के)	[लड़की]	पिता-को	उसके-साथ	लेटा-हुआ	पुरुष	और-देगा
<a href="#">H1961</a>		<a href="#">H3701</a>	<a href="#">H2572</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H5291</a>	<a href="#">H0001</a>		<a href="#">H7901</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H5414</a>
ס	ימיו:	כל-	שלחה	יוכל	לא-	ענה	אשר	תחת	לאשה	
स	दिनों-उसके	सब-	भेजने-को-उसे	सकेगा	नहीं-	दीन-किया-उसे	जो	कारण	पत्नी-को	
	<a href="#">H3117</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H3201</a>	<a href="#">H3808</a>			<a href="#">H8478</a>	<a href="#">H0802</a>	

उसे लड़की के पिता को बीस औंस चाँदी देनी चाहिए और लड़की उसकी पत्नी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध किया वह उसे पूरी जिन्दगी तलाक नहीं दे सकता।

ס	אביו:	כנה	יגלה	ולא	אביו	אשת	את-	איש	יקח	לא-
स	पिता-उसके-की	छोर	खोलेगा	और-नहीं	पिता-उसके-की	पत्नी	को-	पुरुष	लेगा	नहीं-
	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H3671</a>	<a href="#">H1540</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H0001</a>	<a href="#">H0802</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H3808</a>

“किसी व्यक्ति को अपने पिता की पत्नी के साथ शारीरिक सम्बन्ध करके अपने पिता को कलंक नहीं लगाना चाहिए।